

शरण | by Tatsha Gupta

तेरे दामन की छाँव में बाबा तेरी पनाह में
मुझे रख लो चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा
सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम
चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

कहूँ क्या गैर की तुमसे चोट अपनों ने दी है
लुटाया खुद को जिन पे उन्ही ने खुशियां ली हैं
हुए बेगाने थे अपने किया है मुझको भी बावरा
सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम
चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

बड़े खुदगर्ज ये दुनिया काम के रिश्ते नाते
सुखों में साथ हैं चलते हैं दुःख में पीठ दिखाते
दिया है धोखा सबने भरोसा तू ही है सांवरा
सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम
चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

पुकारा भक्त ने जब भी दौड़ के तू ही आया
भराया भात कहीं पे कहीं पे चीयर बढ़ाया
लाज राघव की भी रख लो करूँ बस ये ही मैं कामना
सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम
चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%a3-by-tatsha-gupta/>